



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ 1945 (श10)
(सं0 पटना 544) पटना, गुरुवार, 06 जुलाई 2023

शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय
शिक्षा विभाग

अधिसूचना
3 जुलाई, 2023

सं० 12/ प्रशिक्षण-01/2016 (अंश-1)-343—राज्य के गैर सरकारी स्ववित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी०एल०एड० कोर्स के लिए, शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000/—(साठ हजार) रुपये वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु प्रति छात्र अधिकतम कुल 1,20,000/— (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा डी०एल०एड० कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर हुआ है। अतः वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा।

डी०एल०एड० कोर्स के शुल्क निर्धारण से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 544-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>